

APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE सहायता हेतु आवेदन प्रारूप		(Healthcare) (स्वास्थ्य देखभाल)	 Building block of life	
APPLICATION NO.: आवेदन संख्या:	BLOS2410480	APPLICATION DATE: आवेदन तिथि:	22/5/24	
NAME of APPLICANT: आवेदक का नाम:	Srikanta	AGE-YEARS वार्ष-वर्ष:	60	
FATHER'S/SPOUSE'S NAME: पिता/पत्नी का नाम:	Slo muddegowda	SEX लिंग:	M	
PRESENT RESIDENCE ADDRESS: वर्तमान बासस्थान पत्ता		d hosahalli koppa Hobali maddur taluk mangaluru mandya karnataka		
PERMANENT RESIDENCE ADDRESS: स्थान जनसंघ पत्ता		— 11 —		
OCCUPATION: जनसंघ	coolie	MARRIED (विवाहित) / UNMARRIED (अविवाहित)		
TOTAL ANNUAL INCOME: कुल वार्षिक वय	16,000/-	(Attach Proof of Income) (आवेदक का साध्य संतोष)		
PAN No.: ज्ञानी नंबर संख्या				
ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE? (Tick whichever is applicable): <input checked="" type="checkbox"/> आप आप का गति है (जो मन हो उम पर मही का निशान लगाये)				
Yes / No हाँ / नहीं				
FAMILY DETAILS परिवार विवरण				
Sr. No. क्रम संख्या	Name of Family Member परिवार के सदस्यों का नाम	Age (Years) उम (वर्ष)	Gender लिंग	Relation with Applicant आवेदक के साथ सम्बन्ध
①	preeta swamy	51/4 24/4	F m	sister सौन
BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable) सहायता के लिये विस्तृत अध्या				
BPL Card (Attach Card Copy) गवर्नर रेल के नीचे जापान पत्र (प्रधान पत्र की जाप प्रति संस्करण करें)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy) जाप जाव चर्चे प्रमाण पत्र (प्रधान पत्र की जाप प्रति संस्करण करें)	Ration Card (Attach Copy) उपभोक्ता कार्ड (प्रधान पत्र की जाप प्रति संस्करण करें)	Any Other Basis/Proof अन्य कोई साध्य	
"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE: सहायता हेतु लिये गए विकल्पों का उद्देश्य:				
Sr. No. क्रम संख्या	Medical Reports/Prescriptions Attached ज्ञानालय/कार्डिटा में जारी की गई आवेदन सूची संस्करण			
①	Diagnosis RE cutosack RF cutosack			
Surgery - RF cut + RCIOL				
ASSISTANCE BEING AVAILED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES इस उद्देश्य के हेतु कोई अन्य सहायता किसी अन्य स्रोत से हिस्सा नहीं हो?				
Sr. No. क्रम संख्या	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED तो एই सहायता राशि		
①	DBCC	2000/-		

DECLARATION by APPLICANT: मानेक द्वारा पांचवां यज्ञः

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
 - I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
 - I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं पोर्टल करका हूँ कि इस प्रकार में दिये गये सभी विवरण मेरी जनकारी के अनुसार सापेक्ष सही है। और कोई विवरण ऐसे कठबड़ असाध पाया जाता है तो मेरी जाहाज़ नियत करी जा सकती है।

2) मेरी द्वारा जाहाज़ सरि "कांसियुल फाउन्डेशन", से जीवा जा रही है, उसका उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाएगा, जो इस प्रकार में दिया गया है।

3) मैं पीर करका हूँ कि यह समाप्ति है कि मुझमें कोई गलती नहीं है, उस दृष्टि का अधिकार या नकल या भ्रष्ट या भ्रातृत्व या भ्रातृत्वीय या भ्रातृत्वीयी या न जीता रखा है और न ही विवरण में जीता।

AGREEMENT by APPLICANT (initials and date)

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfilment of the "purpose" for which assistance is being requested.

- 2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

- 1) इस उपर का अपने हस्ताक्षर के लिए कोई जाप समाकार में (आवेदक) अपनी सहमति की पुष्टि करता है एवं “कोलिका फार्मासेंस” को अधिकृत करता है कि ये न बच, पता, खोले और जो विधान इस उपर के लिए है, उसे “कोलिका” एवं नामों, दान, वाचना/क शुद्ध उत्तरेक से नुकी गतिविधियों और उपलब्धियों के लिए कियी भी प्रशासनिक गति व प्रशासनिक कानून के लिए अधिकृत है। ऐसे उपर का विधान में हस्ताक्षर के लिए या बारे ये करने के लिए “कोलिका फार्मासेंस” व ज्ञाती अधिकृत है।
 - 2) मैं (आवेदक) इस बात में सहमत हूँ कि ये न बच, पता, खोले और विधान जो कि सामग्री के उत्तरेश्वरों से प्राप्ति है नुकी ब्राह्मण: सामग्री का हक्कादार नहीं बनता। इस सम्बन्ध में “कोलिका” नामों वाली विधियों और विधानियों द्वारा।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

第二章 中国古典文学名著



AGREEMENT by HOSPITAL (百四兩印 註明)

By affixing her/himself, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we (Hospital) hereby affirm & accept following:

- 1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.
2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility in the matter.

इनके अधिकार, इनकी कोर्ट और सेवा प्राप्ति दोनों को "कानूनीकरण काउन्सिल" से विभिन्न माध्यम होते विवरित की जाती है, जिसे हम (एसपीएल) निम्न उक्त से भव्यता से संदर्भित करते हैं।

- 1) यह कि न हो परिवर्त और न ही परिवर्त में विशिष्ट सहायता किसी गैर सहकारी संस्थान या किसी अन्य संस्था द्वारा देएँ/मानवते में लिए जा सकते हैं, ऐसे कि हमारे "कोलंबिका फाउन्डेशन" में सिसारियोलॉजी इन्स्टीट्यूट के समर्थन में "कोलंबिका फाउन्डेशन" द्वारा मदर हेंटु किया है। यदि "कोलंबिका फाउन्डेशन" द्वारा सहायता विनाशी अतिरिक्त/सहकार देना यहांनुसार नहीं किया जाता है तो सम्पादन किसी अन्य गैर सहकारी संस्था या किसी अन्य संस्थान में सहायता देने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। इस दृष्टि में एक बड़ा कानून जाता है कि अस्पताल द्वितीय मदर उक्त देएँ/मानवते देना किसी गैर सहकारी संस्था या किसी अन्य संस्थान में नहीं संभव होता।

2. "कोलंबिका फाउन्डेशन" से ली गई सहायता कोलंबिका विशिष्ट प्रकृति की है। येरी पर इस्पाताल द्वारा यी एवं स्वतंत्र या किसी दूसरे उपचार/प्रक्रिया का चुनाव येरी एवं हमस्पाताल के बीच का किया है और "कोलंबिका फाउन्डेशन" द्वारा किसी प्रक्रम का कोई रकम नहीं है। इसलिये इस्पताल में येरी के इताज सुधारा भी उन्हें जाने को लाती रिक्मेंटी देनी एवं इस्पताल की येरी और "कोलंबिका" दोनों संस्थान या विस्मेंटी की सह सम्पत्ति में नहीं होती।

RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE

स्वीकृति के लिए संस्कृति

Ar. Lakshmi Pathi

Minister Chiriboga

**Designation & Stamp of Authorised Signatory
on behalf of Hospital**

Date of Surgery ऑपरेशन की तारीख 22/5/24	Dr. Laxmi Dorennavar MBBS, MS, FPRS, FICO (MamtaLaxmi Eye Clinic) दॉक्टर का नाम व हस्ताक्षर के संबंध में	Manager Outreach Institute for Diabetes & Eye Care (Institute of Shraddha Eye Care Trust.) 218A, Thirumalai Road, Anna Salai, Madras Central Area (Name, Designation & Stamp of Authorised Signatory on behalf of Hospital) नम व पद हस्ताक्षर लिएकरी अधिकारी
--	--	--

FOR INTERNAL USE of KOSHIKA FOUNDATION

SIGNATURE of TRUSTEE 1 नामी हस्ताक्षर ।	SIGNATURE of TRUSTEE 2 नामी हस्ताक्षर 2
	